Investments via

PTI NEW DELHI

patory notes rose to close to a

six-year high at Rs 1.23 lakh crore in July-end, making it the

fifth consecutive monthly

increase, on the back of stable

macroeconomic fundamentals.

highest level since December

2017 — when investment

through the route stood at Rs 1.25 lakh crore, data with the Securities and Exchange Board

value of P-note investments in

Indian equity, debt, and hybrid

Participatory notes (P-notes) are issued by registered

Foreign Portfolio Investors

(FPIs) to overseas investors who

wish to be part of the Indian

through a due-diligence process.

value of P-note investments in

Indian markets — equity, debt,

They, however, need to go

According to Sebi data, the

themselves directly.

The latest data includes the

of India (Sebi) showed

securities.

The amount has reached the

P-notes rise to ₹1.23

Moody's raises India's growth forecast to 6.7 per cent for 2023

oody's Investors Service on Friday raised India's growth projection for 2023 calendar year to 6.7 per cent citing upside to growth performance helped up robust underlying economic momen-

In the Global Macro Outlook 2023-24 (August update), Moody's said strong services expansion and capital expenditures have propelled India's 7.8 per cent real GDP growth in the second (April-June) quarter from a year ago.

"Given the robust underlying economic momentum, we also recognise further upside risk to India's economic growth performance, Moody's said while raising its 2023 calendar year growth forecast for India to 6.7 per cent, from 5.5 per cent.

The global rating agency, however, lowered 2024 growth forecast to 6.1 per cent from 6.5 per cent, citing a high base of

India's monsoon season which runs from June to



October could also see below average rainfall, resulting in higher food prices. As of August 29, the India Meteorological Department has estimated a 9 per cent rain deficiency across

If El Niño this year proves to be particularly strong in the second half of 2023 and early 2024, agricultural commodity prices could shoot up, Moody's

The Reserve Bank of India's monetary policy committee left the repo rate unchanged for a third time in August.

The recent uptick in food price inflation and uncertain El

Niño-related weather conditions will delay monetary policy easing consideration to early

"Domestic demand in India remains buoyant, and as long as core inflation remains relatively stable, rate hikes are also unlikely," Moody's added.

next year, it said.

With regard to global growth, the US-based agency said tight financial conditions will continue to dampen global economic growth through 2023 and keep growth below trend in

For the G20, "we expect real gross domestic product (GDP) growth to slow to 2.5 per cent in

from 2.7 per cent in 2022".

With regard to growth in China, Moody's said the economy is facing "considerable growth challenges, causing us to cut our 2024 growth expectations. We have lowered our growth expectation for 2024 to 4 per cent from 4.5 per cent".

This expectation assumes a stabilization and turnaround of economic indicators with modest support from authorities. We recognize, however, that there are significant downside risks to growth and that policy measures may prove inadequate to prevent further deterioration," Moody's

Economic activity in the first half of 2023 outpaced our expectations in multiple countries, including India, Moody's said. Moody's had last month affirmed India's sovereign rating at 'Baa3'— the lowest investment

Earlier this year, Moody's had projected economic growth in 2023-24 fiscal (April-March) at 6.1 per cent, lower than 7.2 per cent clocked in 2022-23.



'93 per cent of ₹2,000 notes returned to banks

The Reserve Bank on Friday said that as much as 93 per cent of Rs 2000 currency notes that were in circulation on May 19 — the day when the currency was withdrawn from circulation — have been returned to banks. According to the data received from the banks, the total value of Rs 2000 banknotes received back from circulation is Rs 3.32 lakh crore up to August 31, 2023, it said in a

"Consequently, Rs 2000 banknotes in circulation as at the close of business on August 31, 2023 stood at Rs 0.24 lakh crore. Thus, 93 per cent of the Rs 2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023, have since been returned," it said.

Data collected from major

banks indicates that out of the total banknotes in Rs 2000 denomination received back from circulation, about 87 per cent is in the form of deposits and the remaining around 13 per cent has been exchanged into other denomination ban-

The Reserve Bank of India had announced the withdrawal of Rs 2000 banknotes from circulation on May 19, 2023..

The total value of Rs 2000 banknotes in circulation, which amounted to Rs 3.62 lakh crore on March 31, 2023, had declined to Rs 3.56 lakh crore as at the close of business on May 19, 2023. RBI requested the members of the public holding the high-value banknote to utilise the remaining period until September 30, 2023, to deposit and/or exchange them.

lakh crore in July-end and hybrid securities - stood at Rs 1,22,805 crore at the end of Investment in the Indian capital markets through partici-

July as compared to 1,13,291 a month earlier. In comparison, investment through the route was Rs 1,04,585 crore in May-end, Rs 95,911 crore in April-end, Rs 88,600 crore in March-end, Rs

and Rs 91,469 crore in January-The growth in P-notes generally aligns with the trend in FPI flows. When there is a global risk to the environment,

88,398 crore in February-end

investment through this route increases, and vice-versa. Market analysts said one of the prime factors for the growth in P-notes investments is the stable Indian economy amid an

uncertain global macro back-drop. Additionally, the slowdown in the Chinese economy has led investors to shift their stock market without registering focus towards India. Of the total Rs 1.22 lakh

crore invested through this route till July, Rs 1.13 lakh crore was invested in equities, Rs 9,531 crore in debt and Rs 299 crore in hybrid securities.

GST collection rises 11 per cent to ₹1.59 lakh crore in August on improved compliance

PTI ■ NEW DELHI

GST collections grew by 11 per cent to over Rs 1.59 lakh crore in August on the back of improved compliance and reduced evasion.

The gross GST revenue collected in August 2023 is Rs 1,59,069 crore of which Central GST is Rs 28,328 crore, State GST is Rs 35,794 crore, Integrated GST is Rs 83,251 crore (including Rs 43,550 crore collected on import of goods) and cess is Rs 11,695 crore (including Rs 1,016 crore collected on import of goods).

"The revenues for the month of August 2023 are 11 per cent higher than the GST revenues in the same month last year. During the month, revenue from import of goods was 3 per cent higher and the revenues from domestic transactions

(including import of services) are 14 per cent higher than the revenues from these sources during the same month last year," the Finance Ministry said in a statement.

The Goods and Services Tax (GST) collection was over Rs 1.43 lakh crore in August 2022.

Revenue Secretary Sanjay Malhotra said GST collections have grown more than nominal GDP growth rate in the April-June quarter despite no increase in tax rates.

This is because of better compliance and improved tax collection efficiency," Malhotra said, adding tax evasion and avoidance too have been low.

KPMG Partner and National Head Indirect Taxes Abhishek Jain said with the approaching festive season GST collections are expected to be better in the coming months.

COSCO (INDIA) LIMITED

CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007

Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in

Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

BSE Trading Symbol: COSCO

INFORMATION REGARDING 44TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") /OTHER

AUDIO-VISUAL MEANS("OAVM"

44th Annual General Meeting: Shareholders may note that the 44th Annual General Meeting("AGM") of the Company will be held through VC/OAVM on Saturday, 30th September, 2023 at 12:00 Noon(IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules

issued thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars Nos.

20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs("MCA") and Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by

SEBI, along with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI, to transact the business(es) that will be set forth in the

In compliance with the above Circulars, the Company will be sending electronics copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the

financial year 2022-23 to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s) ("DP"). The Notice of 44th AGM Notice and Annual Report for the Financial year 2022-23 will also be made

available on the Company's website www.cosco.in, on the website of

the Stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com where the equity shares of the Company are listed. And AGM Notice will also be available on the website of National Securities Depository Limited

Remote e-Voting facility ("remote e-Voting") is provided to the

shareholders to cast their vote on restrictions which are set out in the Notice of the AGM. Shareholders have the option to either cast their

vote using the remote e-Voting facility prior to the AGM or e-Voting during the AGM. Detailed Instructions for remote e-Voting/e-Voting

during the AGM will be provided in the Notice of the AGM to the

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions

Rupee settles flat at 82.70 against \$

The rupee ended on The rupee ended on a flat note at 82.70 (provisional) against the US dollar on Friday as surging crude oil prices dented the investor senti-

The domestic currency, however, found support from positive sentiment in equity markets on the back of robust macroeconom-

According to a survey released on Friday, manufacturing activities in India gained momentum in August as new orders and output increased at the quickest rates in nearly three years. The seasonally adjusted S&P

Global India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) rose to 58.6 in August from 57.7 in

The latest government data released on Thursday showed India

received by the Company :-

per cent during the April-June period of 2023-24, the highest in the past four quarters, retaining its position as the world's fastest-growing major economy.

At the interbank foreign

exchange, the domestic unit opened at 82.58 and touched the lowest level of 82.76 during intra-day trade. The Indian currency

finally settled flat at Thursday's closing level of 82.70 (provisional) against the greenback. The American currency stayed firm tracking cues from positive GDP numbers in the US while forex traders awaited employment and manufacturing growth numbers.

Anuj Choudhary, Research Analyst at Sharekhan by BNP Paribas, said: "We expect rupee to trade with a slight negative bias on rising US dollar and surge in crude oil prices. However, rise in risk appetite in global markets may support rupee at lower levels.

Sensex, Nifty rally around 1 per cent on strong macro data, global cues

PTI MUMBAI

Equity benchmark Sensex on Friday rallied around 556 points, logging its best single day in two months, while Nifty closed above the 19,400 level on value-buying in power, metal and oil stocks following strong domestic macro data and glob-The BSE barometer closed

higher by 555.75 points or 0.86 per cent at 65,387.16 with 26 of its constituents ending in the

The index opened higher and later touched a high of 19,435.30 in day trading. It touched a low of 64,818.37. The broader Nifty spurted by

181.50 points or 0.94 per cent to close at 19,435.30. As many as 44 Nifty stocks advanced while six declined. NTPC was the lead gainer

among Sensex stocks, rising by 4.84

JSW Steel (3.37 per cent), Tata Steel (3.33 per cent), Maruti (3.24 per cent), Power Grid (3.07 per cent), IndusInd Bank (2.95 per cent), Bajaj Finance (2.12 per cent) and Tech Mahindra (2.22 per cent) were among major gainers.

Cement, Sun Pharma, Nestle and L&T were the losers

Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services said, "Domestic markets made significant gains, buoyed by favourable global cues, a higher-than-expected domestic manufacturing PMI, and positive GDP growth data.



This robust economic outlook ropelled key manufacturing sectors to lead the rally, while strong sales figures generated increased interest in auto stocks. Nair added.

Official data released on Thursday showed that the Indian economy grew 7.8 per cent in the June quarter. mainly on the back of double-digit retained its position as the world's fastest-growing major economy.

"Most sectors contributed to the move wherein metal and energy gained maximum. The market breadth also ended strongly on the advancing side, thanks to continued buying in midcap and smallcap space," Ajit Mishra, SVP - Technical Research,

Religare Broking Ltd, said. In the broader market, both BSE Midcap and SmallCap rose by 0.75 per cent each.

All the sectoral indices except for healthcare closed with

BSE Metal rose the most by 3.32 per cent, followed by Utilities by 3.09 per cent, Telecom (2.73 per cent), Power (2.73 per cent), Oil & Gas (1.85 per cent), Auto (1.58 per cent), Commodities (1.57 per cent), Energy (1.48 per cent) and IT (1.02 per cent). Healthcare declined 0.6 per

Overall market breadth was positive as 2,183 stocks advanced, 1,479 stocks declined and 124 stocks closed unchanged. As many as 281 stocks hit their 52week high levels while 22 scrips traded at 52-week lows.

In Europe, Britain's FTSE 100 rose 0.5 per cent, France's CAC 40 edged up nearly 0.1 per cent while Germany's DAX was little changed. Gains in US futures supported the positive sentiment. Dow futures was up 0.3 per cent and S&P 500 futures

rose 0.2 per cent. Among Asian markets, Japan's benchmark Nikkei 225 rose 0.3 per cent, South Korea's Kospi added 0.3

added 0.4 per cent. Global oil price benchmark Brend Crude futures surged 1.26 per cent to

USD 87.92 per barrel. Thursday, Institutional Investors (FIIs) were net sellers of domestic equities as they offloaded shares worth Rs 2,973.10

crore, as per exchange data.

Amazon excited about India; sees huge headroom for e-com market growth: Country Head



 ${
m E}$ -commerce giant Amazon is "excit-ed" about India market, charged by digitisation, economic growth and younger demographics, its country head Manish Tiwary has said asserting that the runway on e-commerce opportunity in the country "is huge" going forward. In an interview with PTI, Tiwary,

who is the Country Manager Consumer Business at Amazon India, spoke about "a very clear calendar" for making business here profitable, and assured that the company is on track with its 2025 targets. Amazon, which recently marked its

10-year journey in India and has a 100 million-plus customer base, still considers it 'day zero' here, given a massive runaway for growth in this largely underpenetrated market. The company is committed to tap-

ping the market potential and bringing new innovations to the fore, he said. Tiwary described India's e-com-

merce market as "exciting and attractive" and went on to say that "headroom is not a challenge for this industry, at least for the next few decades" so long as the focus is on getting the 'customer and seller basics' right. "Worldwide for us...India continues to be a very exciting market...So worldwide Amazon is very focused and continues to be super excited with India," he pointed out.

Amazon's optimism about India ecommerce prospects is backed by the pace of economic growth, digitisation, mobile and internet penetration, and most recently the 5G adoption.

"I can't think of too many markets of this size which can have this kind of potential," he said. Asked about the path to profitabili-

and steps taken towards that goal, Tiwary said just as with any business, the company has a certain timeframe in which it expects to turn profitable on various markers.

"The good news is, India business is meeting all those relevant markers on profitability as we go along," he said, explaining that the company undertakes continuous review of its portfolio.

Based on such portfolio assessment, it doubles down on ideas that work well and slowly withdraws from those that don't. "As far as the core profitability is concerned, we are very happy with how we are meeting the markers on that journey...Let me assure you there's a very clear calendar on how we plan to make this business profitable," he said.

A surge in online users and smartphone penetration alongside rising household incomes has fuelled a meteoric growth of India's e-commerce sector. As per FIS' 2023 Global Payments Report released earlier this year, India's e-commerce market is projected to grow to USD 150 billion in 2026 from USD 83 billion in 2022. According to a Redseer report, Indian e-commerce is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 27 per cent to reach USD 163 billion by 2026, nearly three times the growth of the overall retail market.



rise 19 per cent to 70,350 units in August

PTI ■ NEW DELHI

Mahindra & Mahindra (M&M) on Friday said its total automotive wholesales increased by 19 per cent to 70,350 units in August.

The company's total dispatches to dealers stood at 59,049 units in August 2022.

The Mumbai-based auto major's passenger vehicle sales in the domestic market rose by 25 per cent to 37,270 units last month as against 29,852 units in August last year, the auto major said in a statement.

"We clocked our highest-ever SUV domestic sales of 37,270 (units) in a month with a growth of 26 per cent...While demand for our key SUV brands continue to be strong, we are keeping a close watch on the availability of semiconductors and select parts, for sustained and smooth scale up," M&M President, Automotive Division Veejay Nakra said.

The company reported a 17 per cent year-on-year decline in exports at 2,423 units in August.

("FAQs") for Shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on nos. 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in Shareholders who wish to register their e-mail address and/or update

("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

shareholders of the Company.

Voting Information

in electronic mode

bank account mandate to receive company communication/dividend, are requested to please follow the following instructions: For Shares held Register/update the details in your demat

account, as per the process advice by your DP For Shares held in Register/update the details in the prescribed Physical form FORM ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company M's Skyline Financial Services Pvt. Ltd., Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-Pod-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023 the Company has sent letters to the shareholders holding shares in the physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios

Further the shareholder can also access the relevant forms on Company's website at https://www.cosco.in/investors/holder-ofphysical-securities This notice is used for the information and benefit of all the members of

the Company and is in accordance with the applicable circulars of the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of

Place: Delhi Date: 31st August, 2023

For Cosco (India) Limited Şd/-Devinder Kumar Jain Managing Director and CEO

SRF LIMITED

Folio No. Name of the Share Holder / Cert-No.

Regd. Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Vihar Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi-110091 Corporate Office: Block-C, Sector 45, Gurugram, Haryana-122 003 Tel. No (Regd office): (+91-11) 49482870; Fax: (+91-11) 49482900 E-mail: cs@srf.com, Website: www.srf.com; CIN: L18101DL1970PLC005197

Notice is hereby given that Share Certificates pertaining to shares of the Company detailed below have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been

No.	Polio No.	Legal Heir (Claimant)	Cert-No.	Dist-No.	Shares
1	SRF0048200	ANIL AGARWAL	1130417	310197798-8037	240
		The same of the sa	90100543-44	9984470-529	60
2	SRF0028155	ARCHANA ANIL SARMALKAR	363707-10	16950007-42	36
		ANIL DHANAJI SARMALKAR	512707-10	24969799-834	36
			648221-23	43207837-916	80
			747057	61801344-45	2
			774551-52	65086541-43	3
			1128505	309477234-8105	872
			90061318	8782982-3017	36
			90187722	14853945-69	25
3	SRF0049182	HAKIM SINGH CHANDELE	654802-09	43383667-894	228
		PRABHA CHANDELE			
4	S 0007056	SHIRIN SEN	146311	5842646-61	16
			490994-97	24575440-68	29
			977073	18605623-26	4
			1125956	308414290-485	196
5	SRF0041590	CHITRA KHILNANI	379688-90	17210094-150	57
			528688-90	25229886-942	57
			1128585	309506030-885	856
			90087107-09	9572886-985	100
6	SRF0041718	ASHOK VITHAL JOSHI	1129028	309666814-7413	600
		JYOTSNA ASHOK JOSHI			
7	SRF0040664	S GANESH KUMAR	378632-34	17191670-744	75
		S KAMAKSHI	527632-34	25211462-536	75
			90085263-265	90085263-105	100
			90196353	15171660-709	50
8	SRF0040665	S KAMAKSHI	378635-37	17191745-819	75
		K SUNDARARAJAN	527635-37	25211537-611	75
			90085266-68	9517106-205	100
			90196354	15171710-59	50
9	R 0004538	RAMNI BHALLA	49948	2701676-700	25
			76470	3560716-23	8
			141393	5727470-85	16
			1124758	308044746-69	324
			90035546	7436562-93	32
10	S 0002715	RAM KAKKAR	144321	5805518-35	18
			339349-50	16507100-114	15
			488349-50	24526892-906	15
			976882	18600122-57	36
			90038499	7540830-65	36
			90173149	13045930-69	40

objection with the company at its Corporate Office within 15 days of the publication of this notice,

Public is hereby cautioned against dealing with the aforesaid share certificate

Place: Gurugram Date: 01-09-2023

ailing which the company will consider to give effect to the above requests.

for SRF LIMITED

RAJAT LAKHANPAL Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

गाजियाबाद में किशोरी से सामृहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

ऑटो में बैठाकर बच्ची को ले गए थे आरोपी, लोगों ने थाने पर किया हंगामा

मामला सामने आया है। दो यवक छात्रा को बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठाकर एक मकान पर ले गए और

आरोपी गिरफ्तार कर लिया है. सलमान की तलाश जारी है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने थाने पर पहुंचकर हंगामा किया।

गुर्जर ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि इन दरिंदों को कुचल दिया जाए। मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का है। 15 साल की लड़की कक्षा-7 जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी

हमारी बेटी स्कूल जा रही थी। स्कूल से कुछ ही दूरी पर दो शख्स ऑटो लेकर आए और उसका रास्ता रोक

> वाटिका में एक पहुंचे। वहां दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसको

भाजपा विधायक नंदिकशोर ऑटो से ही लोनी में बुध बाजार लक्ष्मी गार्डन में उतार कर फरार हो में पढ़ती है। बच्ची के पिता ने बताया बेटी रोती हुई घर आई और सारी

TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD.

CIN: L40108UP2005PLC094368

Registered Office: C-218, Ground Floor (GR-2)

Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar,

Uttar Pradesh, India, 201307, Phone No: (0120) 2406030 Corporate Office: 1B, Park Plaza, South Block, 71, Park Street, Kolkata-700 016

Phone No: (033) 4051 3000, Fax No: (033) 4051 3326

NOTICE OF THE 18™ ANNUAL GENRAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), REMOTE

E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Members of Technology

Electric & Engineering Company Limited will be held on Tuesday, the September 26

2023 at 3.30 p.m. through VC/OAVM to transact the businesses as set out in the Notice

convening the Meeting (the "Notice') in compliance with the relevant provisions of the

Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (amended) (the

"Listing Regulations") and in compliance with Ministry of Corporate Affairs(MCA) circular

dated 05th May, 2022 and SEBI circular dated 13th May, 2022 and such other applicable

MCA and SEBI circulars (collectively referred to as the "relevant circulars") to transact the

In accordance with the said Circulars, the Notice convening the AGM alongwith the Annua

Report Including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31

2023 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are

registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA"), i.e.

M/s. Niche Technologies Private Limited or the Depository Participant(s) and holding

equity shares of the Company as on August 18, 2023. The Notice and the Annual Report

are available on the websites of the Company viz., www.techno.co.in and of the Stock

Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed viz:. www.nseindia.com

and www.bseindia.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the

agency engaged for providing e-Voting facility i.e. National Securities Depository Limited

Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto

read together with the MCA Circulars and Regulation 44 of the Listing Regulations, the

Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-Voting facility and e

Voting facility during the AGM to all the eligible Members to enable them to cast their votes

electronically in respect of the businesses to be transacted at the Meeting. The manner

and Instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system

The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-voting only. The

Members, whose names appear in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, September 19, 2023

being the cut-off date shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) or

Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting period will commence on Friday, September 22, 2023 (9:00 A.M. IST)

and will end on Monday, September 25, 2023 (5:00 P.M. IST). Thereafter the module of

remote e-voting shall be disabled by NSDL. A person who is not a member, as on the cutoff date, i.e. Tuesday, September 19, 2023 should treat the Notice for Information

Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be

eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via

www.evoting.nsdl.com. Members who have exercised their voting rights by remote e

Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be

Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after

despatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e., September

19, 2023 may obtain the login ld and password for e-Voting, by sending a request to NSDI

at evoting@nsdl.co.in. Members who are already registered with NSDL for remote e

All documents referred to In the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be

made available for Inspection by the Members of the Company, without payment of fees

upto and including the date of the AGM. Members desirous of inspecting the same may

send their requests at desk.investors@techno.co.in from their registered e-ma

NOTICE is hereby also given that pursuant to Section 91 of the Act and Rules made

thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the

Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Wednesday

September 20, 2023 to Tuesday, September 26, 2023 (both days inclusive) for the

Further the Dividend on Equity Shares for the financial year ended March 31, 2023, as

recommended by the Board, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of

a) those Members whose names appear in the Register of Members of the Company a

b) those 'Beneficial Owners' entitled thereto, in respect of shares held in demat mode

For members holding shares in physical mode SEBI vide its circular dated 03rd November

2021 had mandated registration of PAN, KYC details and nomination. Members holding

Shares in physical form are, therefore requested to submit their PAN, KYC details

including Bank details and nomination details to our RTA at nichetechpl@nichetechpl.com

A copy of such form can be downloaded from the website of the Company a

www.techno.co.in or from the website of RTA nichetechpl@nichetechpl.com. Nor

availability of the KYC documents/details RTA on or after 01st April, 2023 will result in

freezing of the physical folios. Members holding shares in the physical mode are also

Members holding shares in dematerialized mode are requested to update their complete

Members are requested to refer the Notice of AGM regarding complete details and

In case of any queries/grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual

Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e

details with their depository participant to avoid delay in receiving in Dividend.

Manner for registering KYC including Bank details for receiving Dividend:

whose names shall appear in the statements of beneficial ownership at the end of

business hours on Friday, September 15, 2023, as furnished by respective

Depositories, viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Centra

Book Closure Notice for AGM and Record Date for Dividend Payment:

the end of business hours on Friday, September 15, 2023.

Depository Services (India) Limited (CDSL).

requested to dematerialized their shareholding at the earliest.

procedure to be followed in regards to Tax on Dividend

Manners of casting votes through remote e-voting and e-voting during AGM:

during the Meeting have been provided alongwith the Notice

entitled to cast their votes again during the AGM

Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.

business as set out in the notice of the Meeting.

(NSDL) viz., www.evoting.nsdl.com.

Participation at the AGM:

Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail:

पुलिस ने 29 अगस्त को इस केस में अंकश और एक अज्ञात व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर लोनी बॉर्डर पर पहुंचे।

उन्होंने इस पुरी घटना पर आक्रोश जताते हुए सभी आरोपियों पुलिस ने विधायक को बताया कि मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार

व्यक्ति के मकान में दरिंदगी हुई है, उसके मालिक और ऑटो डाइवर को भी गिरफ्तार किया जाए। मीडिया से अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक

<u>पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद</u> 28 अगस्त की सुबह साढ़े 7 बजे घटना बताई। थाना लोनी बॉर्डर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, ये दुखद घटना है। सलमान नाम का दरिंदा है, जो ऑटो में बैठाकर ले गया। बच्ची उच्चाधिकारियों से कह दिया है कि दरिंदों को बरी तरह कचल दीजिए।

अगर नहीं कुचलते हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है कि सलमान का मकान सील किया जाए। मैंने अधिकारियों से कहा है कि वो लोनी क्षेत्र के सभी ऑटो वालों की चेकिंग करें। जिनके पास लाइसेंस या दस्तावेज नहीं हैं।

तीन दिन में पुलिस ने कार्रवाई विधायक ने कहा कि जिस करने का आश्वासन मुझे दिया है। इस मामले में रवि प्रकाश सिंह ने बताया है, दूसरा आरोपी फरार है।

धोखे से पेटीएम लोन लेने वाला

गिरफ्तार

गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने खुद को पेटीएम कर्मचारी बताकर दुकानदारों के साथ फ्रॉड करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बताया, पकड़ा गया आरोपी मनोज कुमार है जो मूल रूप से अलीगढ़ जनपद का रहने वाला है और फिलहाल मंडोली दिल्ली में रहता है।

पंजीकृत कार्यालय :- एनएस-९२, खसरा सं. ३३/२१, राणाजी एन्क्लेव नजफगढ़ निकट अर्जुन पार्क बस स्टैंड, नर्ड दिल्ली-११००४३

ई-मेल आईडी :- superiorfinlease@gmail.com; फोन सं. :-

क्रिवार, २९ सितम्बर, २०२३ को वीडियो कॉन्क्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विज्अल साघन 'ओएवीएम') के माध्यम से आयोजनार्थ निर्घारित वार्षिक सामान्य बैठक के बाबत जानकारी के संबंध म्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना

शेयरघारक नोट करें कि कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 29 सितम्बर, 202 को अप. 2.00 बज आईएसटी वीडियो कॉन्क्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनो ("ओएवीएम") के माध्यम से कार्पोरेट मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वार जारी जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020, 14/2020, 17/2020 तथा अन्य लागू कानूनों एवं सर्कुलर्स अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसाय व

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन समस्त शेयरधार को प्रेषित की जाएगी, जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी/प्रतिभागियों के पास पंजीक हैं। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट http:www.superiorfiniease.com बीएसई वेबसाइट https://www.bseindia.com तथा मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइर https://www.msei.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी

ई-मेल पता पंजीकरण हेतु विधि :-

यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया ई-मेल पता पंजीकरण के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रा एवं ट्रांसफर एजेन्ट नामतः स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') क info@skylinerta.com पर एक अनुरोध फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आग एवं पीछे) की स्कैंड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की

यदि शेयर डीमैट रूप में घारित हैं, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सन्पर्क क और अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीपी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार पंजीकृत करवाएं।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :-

शेयरघारकों के पास एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्ट के माध्यम से रिमोटली डालने का अवसर होगा। अमौतिक, मौतिक रूप में शेयरों के घारकों के लिए तथा जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोटली ई-वोटिंग की विधि शेयरधारकों को सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी, जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी शेयरघारको को एजीएम की सूचना लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर यथासम

प्रगति अग्रवात

कॉस्को (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :- २/८, रूप नगर, दिल्ली-११०००७ वेबसाइट :- www.cosco.in ई-मेल :- mail@cosco.in फोन सं. :- 91-11-23843000, फैक्स :- 91-11-23846000 बीएसई व्यापार प्रतीक :- COSCO

वीडियो कॉन्फ्रेन्स ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजन हेतु निर्घारित 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

गेयरघारक नोट करें कि कम्पनी की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से शनिवार, 30 सतम्बर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम. 2013 के सभी लाग गवधानों एवं तदधीन विरचित नियमों, सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई. 2020, 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 और इस संबंध में एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी किए गए अन्य लागू सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध किए जाने वाले व्यवसाय(यों) के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन हेतु,एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरघारकों को भेजी जाएंगी, जिनक ई—मेल पता कम्पनी∕रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट∕डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) ("डीपी") के पास पंजीबद्ध है। 44वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.cosco.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी, जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं। एजीएम की सूचना नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

यरघारकों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर उनका वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविघा ("रिमोट ई—वोटिंग") प्रदान की जा रही है। शेयरघारकों के पार अपना वोट एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा डालने का विकल्प उपलब्ध होगा। कम्पनी के शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग∕एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए

किसी संदेह की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) तथा शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा नंबर 022-4886 7000 तथा 022—2499 7000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

जो शेयरघारक कम्पनी से संदेश/लामांश की प्राप्ति के लिए अपना ई-मेल पत तथा/अथवा बैंक खाता आदेश अद्यतन करवाने के इच्छुक हैं, कृपया निम्नलिखित अनुदेशों

अभौतिक घारण :-	अपने डीमैट खाते में विवरण, आपके संबंधित डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिय के अनुसार, पंजीकृत/अद्यतन करवाएं ; तथा		
Merce room.	2 (2 () 2) 2 () 1		

निर्घारित प्रपत्र आईएसआर–1 में विवरण, सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/ एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी—पीओडी—1 / पी / सीआईआर /2023/37 दिनांकित 16 मार्च, 2023 के अनुसरण में कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट मैसर्स स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मेज दें। कम्पनी मौतिक रूप में शेयरों के घारकों को केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेज चुकी है, जो उनके संबंधित फोलियों में दर्ज नहीं है।

इसके अतिरिक्त शेयरघारक संबद्ध प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट https://www.cosco.in/ nvestors/holder-of-physical-securities से प्राप्त कर सकते हैं।

वह सचना कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और हितार्थ जारी की गई है तथा कार्पोरेट तंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के लागू सर्कुलर्स के अनुपालन में है।

कॉस्को (इंडिया) लिमिटेर देविन्दर कुमार जैन स्थान : दिल्ली तिथि : 31 अगस्त 2023

महिला से बलात्कार करने वाला कथावाचक पकडा



नोएडा। दुष्कर्म जैसा कृत करने वाले कथा वाचक को दादरी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला उसके पास अपने बेटे के इलाज के लिए गई थी। आरोपी बच्चों को ठीक करने का झांसा देकर उसके साथ एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मनोज

शास्त्री को नगर पालिका दादरी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पीडित महिला ने बताया कि आरोपी मनोज शास्त्री कथा वाचन का काम करता है करीब एक साल पहले ग्रेटर नोएडा के सेक्टर में आयोजित भागवत कथा के दौरान पीडित महिला उससे मिली थी। उसने बताया कि उसका बेटा जन्म से ही बोल नहीं पाता है। मनोज शास्त्री ने महिला को आश्वासन दिया कि उसके बच्चे को वह तांत्रिक विद्या से ठीक कर देगा।



ओर से एबीईएस की ओर विपरीत दिशा में जा रही थी। यातायात कर्मियों ने चालक को पकडकर बस को सीज कर दिया।

लिव इन में रह रही महिला की मौत, हत्या का आरोप

गाजियाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र की वैशाली सैक्टर तीन कॉलोनी में विशेष संप्रदाय के युवक साकिब के साथ लिव इन में रहने वाली पिंकी गुप्ता नामक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पुलिस जब मृतका के भाई के साथ साकिब को हिरासत में लेने गई तो वहां पर उसके परिजनों व सहयोगियों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें मौके से खदेड़ दिया। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस ने मृतका के भाई शुभम गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके पिंकी गुप्ता की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिये हर ऐंगल पर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन साकिब के साथ पिछले चार साल से लिविंग रिलेशन में रह रही थी। लव जेहादी साकिब एवं उसके परिवार वालों ने उसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया।

अधिकारियों की लेटलतीफी पर सीईओ

• बोले आवास से 2 किमी दूर कार्यालय, फिर भी आने में देरी. ये बेहद आपत्तिजनक

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

पाधिकरण के मख्य कार्यपालक प्राधिकरण अधिकारियों से खुश नहीं है। इसकी बडी वजह अपर मुख्य अधिकारी, ओएसडी और अन्य विभागाध्यक्ष व मंडलीय अधिकारियों

का समय से कार्यालय नहीं पहुंचना है। सीईओ ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए विलंब से आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा है। सीईओ की ओर से जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट है कि प्राधिकरण का कार्यालय सबह 9: 30 से शाम 6 बजे तक खुलता है। एसीईओ और ओएसडी रैंक के अधिकारी 10 बजे तक भी कार्यालय उपस्थिति नहीं होते है।

इससे जहां एक ओर जन सामान्य को अस्विधा होती है। वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह आचरण बेहद आपत्तिजनक और उप्र कर्मचारी सेवा विनियमावली के विपरीत है। स्पष्ट कहा गया कि अपर मख्य कार्यपालक अधिकारी और ओएसडी प्राधिकरण

के आवासीय कालोनी सेक्टर-14ए में रहते है। इसकी कार्यालय से अधिकतम दूरी महज 2 किमी है।

फिर भी अधिकारियों का समय से कार्यालय नहीं पहंचना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ अधिकारी ही समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की समय से उपस्थिति कैसे सुनिश्चित कर सकते है। ऐसे में समय से कार्यालय नहीं आने वाले अधिकारियों

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, शाल टॉवर, तीसरी मंज़िल **PICICI Bank** शाखा काथालय : आइताजाङ्गाजाङ्ग नन त्या विक्ली -110005

[नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचन

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार एवं जमानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता केपास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में हैं के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :—

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दारों/ गारंटरों का नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि (रु. में)	सुराक्षत मूल्य (रु. में) धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्तियों निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
(y)	(बी)	(利)	(륑)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	राजीव कुमार (कर्ज़दार), ऋण खाता संख्या LBDEL00003000725	अपार्टमेंट नंबर 1106, 11वीं मंजिल, टॉवर के, गोदरेज समिट, सेक्टर 104 गुड़गाँव क्षेत्रफल : 171.31 वर्ग मीटर।	रु. 1,55,96,173/- (अगस्त 25, 2023 तक)	₹.	सितंबर 18, 2023 को सु. 11:00 बजे से दोप. 01:00 बजे तक	अक्टूबर 16, 2023 को सु. 11:00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (URL Link-https://disposalhub.com) पर संचालित होगी। बंधकदाताओं / सूचना प्रिषेतकर्ताओं को अक्टूबर 13, 2023 को शाम 05:00 बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस / इन संरक्षित संपत्ति /यों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी **ई** संदर्भ) जो **आईसीआईसीआई बैंक** लिमिटेड, शाल टॉवर, तीसरी मंज़िल, न्यू रोहतक रोड, केरोल बाग दिल्ली -110005 में अक्टूबर 13, 2023 तक शाम 05:00 बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के मुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज, **अक्टूबर 13, 2023** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करे कि संमावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल् रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, शाल टॉवर**, तीसरी मंज़िल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली –110005 में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को अक्टूबर 13, 2023 को शाम 05:00 बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चीहिए।

संपत्ति अवलोकन, ई-नीलामी के नियम एवं शतों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन नंबर 8657476284, 8584874809 पर संपर्क करें।

कृप्या नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ 1. मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूश्ंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड व 3. हेक्टा प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्र हैं।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट www.iciclbank.com/n4p4s पर संपर्क करें ।

तिथि : सितंबर 02, 2023

स्थान : गुड़गांव और गाजियाबाद

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड



BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK

(Multi State Scheduled Bank) Regd Head Office: Zain G. Rangoonwala Building, 78, Mohammad Ali Road, Mumbai - 400 003. Phone: 23425961/62/63/64, 23449586, 62552800

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 86th Annual General Meeting of the Members [Shareholders] of BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED will be held on Monday, September 18, 2023 at 10.30 a.m. at Baitul Hujjaj [Haj House], 2nd Floor, 7 - A, M.R.A. Marg [Palton Road], Mumbai - 400 001 to transact the following business:

- To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting held on 02nd September, 2022.
- 2. To consider and adopt the Report of the Board of Directors and the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and Statutory Auditor's Report for the year ended as on 31st March, 2023. 3. To appropriate Net Profit as recommended by the Board of Directors for the year ended 31st March,
- 4. To approve the appointment of Statutory Auditors for the Bank for the year 2023-2024 and fix their
- To consider the Annual Budget of the Bank for the year 2023-2024.
- 6. To approve the amendment in Bye-Law Nos.4 [d], 5, 35[1] and [2], 44[1] and 44[3] as per Annexure
- . To grant Leave of Absence to the Members of the Bank who have not attended this 86th Annual Genera
- 8. Any other issue / business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

[DR. M. SHAH ALAM KHAN] MANAGING DIRECTOR

Date: August 31, 2023

Place: Mumbai.

- If there is no quorum within half an hour after the appointed time, the Meeting shall stand adjourned to 11.00 a.m. on the same day and the Agenda of the Original Meeting shall be transacted at the said venue, irrespective of the rule of quorum, in terms of Bye-Law No.39.
- days in advance of the date of the Annual General Meeting.
- Copies of the Annual Report are available at the Head Office and the Branches of the Bank.

संक्षिप्त समाचार

सिक्योरिटी गार्ड ने दी जान नोएडा। थाना बीटा- दो क्षेत्र के एच्छर गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना बीटा- दो के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती रात को करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मुरादनगर निवासी मोहित कश्यप ने एच्छर गांव में किराए के मकान में पंखे से फंदा लगा लिया है। मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने अंतरजातीय विवाह किया था। कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में था। उन्होंने बताया कि मोहित जेपी ग्रीन में गार्ड

कोर्ट में हड़ताल जारी

की नौकरी करता था।

गाजियाबाद। हापुड़ प्रकरण के बाद शुरू हुई अधिवक्ताओं की हडताल अभी भी जारी है। गाजियाबाद कचहरी में वकालत करने वाले वकीलों ने कोई विधिक कार्य नहीं किया। बार एसोसिएशन के सचिव स्नेह त्यागी का। त्यागी ने कहा कि जब सरकार हापुड़ कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा उस समय तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे।

हादसे इंजीनियर की मौत नोएडा। सेक्टर-125 स्थित कंपनी

जा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तेज गति में आ रहे डंपर ने कुचल दिया। आरोपी डंपर चालक घटना के बाद फरार हो गया। मृतक की पहचान नबी रहम के रूप में हुई है। जब वह अपनी स्कूटी से एशियन लॉ कॉलेज के पास पहुंचे तो पीछे से तेज स्पीड में आ रहे डंपर ने उनको कुचल दिया।

प्राचार्य पर अभद्र पोस्ट गाजियाबाद। मोदीनगर में एक

महिला डिग्री कालेज की प्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट कर दी गई, उनकी पारिवारिक स्थिति को लेकर भी आरोपियों ने टिप्पणी की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में छानबीन शुरू कर दी है। प्राचार्य हैं। उनका आरोप है कि एक युवक उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आरोपी ने कुछ दिन पहले उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कालेज के वाट्सअप ग्रुप पर मैसेज पोस्ट किया था। आरोपी ने इंटरनेट मीडिया पर उनकी बुराई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800 222 990 or contact Mr. Amit Vishal Senior Manager/ Ms. Pallavi Mhatre, Manager of NSDL at Telephone Nos.: (022) 24994360 / (022) 24994545 or at e-mail id: evoting@nsdl.co.in or at NSDL, 'Trade World' 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. For any further assistance, you may contact Mr. Jyotirmoy Banerjee, Investor Relations Manage at Telephone No.: (033) 22895796. Manner of registering/e-mail address: Please keep your updated mail id registered with the RTA/your depository participant to

Date: 01.09.2023

tax at source to:

receive timely communication. For member who have not yet updated their e-mail address the process of registration is provided below Physical Holding:- Members holding shares in physical mode and who have not yet registered /updated their e-mail address with the Company are requested to

registered/update the same by submitting duly filled and signed Form ISR 1 with the RTA Niche Technology Private Limited at nichetechpl@nichetechpl.com. Demat Holding:- Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail address with the relevant depository participants.

Niranian Brahma

Company Secretary & Compliance Officer

For Techno Electric & Engineering Company Limited

(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

Any Member desiring information pertaining to Accounts, is requested to write to the Bank, at-least six